

- N.B 1. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।  
2. उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न/ प्रश्न क्रमांक / उपप्रश्न क्रमांक अवश्य लिखे ।

१. निम्नलिखित अवतरणों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए :

२०

क) वे लोहा पीट रहे हैं  
तुम मन को पीट रहे हो  
वे पत्तर जोड़ रहे हैं,  
तुम सपने जोड़ रहे हो।

**अथवा**

झूठ है यह !  
आदमी इतना नहीं कमज़ोर है ।  
पलक के जल और माथे के पसीने से  
सींचता आया सदा जो स्वर्ग की भी नींव  
ये परिस्थितियाँ बना देंगी उसे निर्जीव !

ख) अब कुछ मत कहो जी। उस जैसा बेटा तो दिया लेकर  
ढूँढे नहीं मिलेगा। किस्मतवाले थे जो ऐसा सोना बेटा पाया ।  
हमारा घर उज्जर हो गया। कभी ऊँची आवाज़ में बोलता नहीं है।

**अथवा**

सुनो मौलवी, यह शहर हिन्दुओं का मुकद्दस शहर है ।  
यहाँ का राजा हिन्दू है। वह लोदी बादशाह को खिराज देता है ।  
अगर मज़हब के नाम पर इस आदमी को पकड़कर सजा देंगे तो किसी  
को बुरा लग सकता है ।

२. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

२०

च) 'गीत-फरोश' कविता की 'युग चेतना' को अपने शब्दों में लिखिए ।

**अथवा**

'दैनिक' कविता का भावार्थ लिखिए ।

छ) 'कबिरा खड़ा बज़ार में' नाटक के आधार पर नीमा का सामान्य परिचय दीजिए ।

**अथवा**

'कबिरा खड़ा बज़ार में' नाटक का सार अपने शब्दों में लिखिए ।

3. निम्नलिखित प्रश्न पर प्रकाश डालिए :

१५

'गांधीजी के जन्म दिन पर' कविता का रचनात्मक उद्देश्य प्रकट कीजिए ।

**अथवा**

'कबिरा खड़ा बज़ार में' नाटक के आधार पर कबीर के वैवाहिक जीवन पर प्रकाश डालिए ।

४. निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणियाँ लिखिए :

१०

ट) 'प्रेत का बयान' कविता का संदेश ।

**अथवा**

'फूल, मोमबत्तियाँ, सपने' कविता का प्रधान भाव ।

ठ) 'कबिरा खड़ा बज़ार में, नाटक का सेना ।

**अथवा**

'कबिरा खड़ा बज़ार में' नाटक का अंधा भिखारी ।

५. निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

१०

१) 'ताजमहल की छाया में' कविता के ताजमहल का दर्शनार्थी कौन हैं ?

२) 'दैनिक' शीर्षक का अर्थ बताइये ।

३) 'फूल, मोमबत्तियाँ, सपने' शीर्षक किस विधा का नाम है?

४) "कौन कहता है कि कविता मर गई?" पंक्ति किस कविता की है?

५) कविता की मौत' धर्मवीर भारती की क्या है?

६) नीमा का पति कौन है?

७) "सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे

दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे ।" कौन कहता है?

८) परबति परबति में फिरिया। नैन गँवाए रोये ।

सो बूटी पाऊ नहीं । जाते जीवन होवे । - किसका कथन है ?

९) 'कबिरा खड़ा बज़ार में' नाटक का कायस्थ कहाँ का निवासी नागरिक है?

१०) पीपा किस नाट्य कृति का पात्र है?

**Q.P. Code : 02068**